



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

24 फाल्गुन 1945 (श०)

(सं० पटना 250) पटना, बृहस्पतिवार, 14 मार्च 2024

विधि विभाग

अधिसूचना

14 मार्च 2024

सं० एल०जी०-01-05/2024-1980/लेज।—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर माननीय राज्यपाल दिनांक 14 मार्च, 2024 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
ज्योतिस्वरूप श्रीवास्तव,  
सरकार के सचिव (प्र०)।

[बिहार अधिनियम 03, 2024]

बिहार मूल्यवर्द्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2024

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम-27) का संशोधन करने के लिए अधिनियम।  
भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में बिहार राज्य विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।—(1) यह अधिनियम बिहार मूल्यवर्द्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2024 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम-27) की धारा 24 में संशोधन।—  
बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम-27) की धारा 24 की उप-धारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित नयी उप-धारा (3क) अन्तःस्थापित की जाएगी, यथा—

“(3क) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी एवं इस बावत बनाए गए नियमों के अधीन, राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा और ऐसी शर्तों एवं निबंधनों के अधीन रहते हुए जो विहित किए जाएँ, किसी वर्ग अथवा श्रेणी के निबंधित व्यवहारियों को अधिनियम के अन्तर्गत विहित विवरणी दाखिल किए जाने से विमुक्त कर सकेगी।”

ज्योतिस्वरूप श्रीवास्तव,  
सरकार के सचिव (प्र०)।

14 मार्च 2024

सं० एल०जी०-01-05/2024-1981/लेज—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और माननीय राज्यपाल द्वारा दिनांक 14 मार्च, 2024 को अनुमत बिहार मूल्यवर्द्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2024 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
ज्योतिस्वरूप श्रीवास्तव,  
सरकार के सचिव (प्र०)।

[Bihar Act 03, 2024]

## THE BIHAR VALUE ADDED TAX (AMENDMENT) ACT, 2024

AN

ACT

*to amend the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act 27 of 2005).*

*BE It enacted by the Legislature of the State of Bihar in the Seventy-fifth Year of the Republic of India as follows :-*

### 1. *Short title, extent and commencement.*—

(1) This Act may be called the Bihar Value Added Tax (Amendment) Act, 2024.

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

(3) It shall come into force at once.

### 2. *Amendment in section 24 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act 27 of 2005).*—After sub-section (3) of Section 24 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act 27 of 2005) the following new sub-section (3A) shall be inserted, namely:-

“(3A)- Notwithstanding anything to the contrary contained in the Act and subject to such Rules as may be made in this behalf, the State Government may, by notification and subject to such conditions and restrictions, as may be prescribed, exempt any class or description of registered dealers from filing the return prescribed under the Act.”

Jyotisaroop Srivastava,  
I/C Secretary to the Government of Bihar.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 250-571+400-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>